



CIN No. L65910DL1990PLC040705

Regd. Office: 4, MMTC/STC Market, Geetanjali, New Delhi-110017

Corp. Office: 315, Square One Mall, Saket, District Centre, New Delhi-110017

Phone No: 011-42181244, Email ID: genesis599@gmail.com / cs.gfcl@gmail.com , Website: www.genesisfinance.net

14th August, 2021

To,
The Listing Executive
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C 62,
G-Block, Opp. Trident Hotel,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400098

SYMBOL: GENESISFIN
ISIN: INE421K01019


Subject: Compliance under Regulation 47 and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir(s)/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, we enclose the newspaper advertisements published in today's leading English Newspaper '**Financial Express**' and in Regional language newspaper '**Jansatta**' in connection with the Unaudited Financial Results of the Genesis Finance Company Limited ("the Company") for the quarter ended on 30th June 2021.

You are requested to take the above information on your records.

For and on behalf of the Company
Genesis Finance Company Limited

Gopal Bisht
(Whole Time Director & Chief Financial Officer)

DIN: 00597160

Office Add: 4 MMTC/STC Market,
Geetanjali, New Delhi-110017

Encl: Cuttings of newspaper advertisements as stated above



I arrive at a conclusion
not an assumption.

Inform your opinion with
detailed analysis.

The Indian Express.
For the Indian Intelligent.

The Indian EXPRESS
— JOURNALISM OF COURAGE —

Parsvnaths
committed to build a better world

PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED

Regd. & Corporate Office: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110 032
CIN : L45201DL1990PLC040945; Tel. : 011-43050100, 43010500; Fax : 011-43050473
E-mail : investors@parsvnath.com; website : www.parsvnath.com

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June, 2021

S.No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 30.06.2021 (Audited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 30.06.2021 (Audited)
1	Total Income from operations	2,002.75	2,299.20	33,800.58	3,728.79
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,587.25)	(5,159.86)	(23,672.18)	(8,922.47)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,587.25)	(5,159.86)	(23,672.18)	(8,922.47)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,587.25)	(5,159.86)	(24,202.73)	(9,850.02)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (After tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(3,587.25)	(5,159.86)	(24,152.86)	(8,877.66)
6	Equity Share Capital	21,759.06	21,759.06	21,759.06	21,759.06
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	1,01,414.70	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations	(0.92)	(1.19)	(5.56)	(2.09)
	- Basic (in Rupees)	(0.92)	(1.19)	(5.56)	(2.09)
	- Diluted (in Rupees)	(0.92)	(1.19)	(5.56)	(2.09)

Notes :-

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13 August, 2021. The Statutory Auditors have also carried out a Limited Review of the unaudited results for the quarter ended 30 June, 2021.
- The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June, 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June, 2021 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website (www.parsvnath.com).
- The outbreak of Coronavirus (COVID-19) pandemic has caused significant disturbance and slowdown of economic activity. COVID-19 has adversely impacted the business operations of the company, by way of interruption of construction activities, supply chain disruption, unavailability of labour, etc. The Company has assessed the economic impact of COVID-19 on its business by evaluating various scenarios on certain assumptions and current indicators of future economic conditions and on the basis of internal and external sources of information. Based on this, the Company has assessed recoverability and carrying value of its assets comprising inventory, receivables, investments, investment properties, intangible assets, right of use assets, advances, deferred tax assets and other financial and non-financial assets and believes that it will recover the carrying value of all its assets. The management will continue to closely monitor any material changes arising out of future economic conditions and impact on its business.
- Figures for the previous quarter / period have been regrouped, wherever necessary, for the purpose of comparison.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Pradeep Kumar Jain
Chairman
DIN : 0033486

Place : Delhi
Date : 13 August, 2021

VPL

VARDHMAN POLYTEX LIMITED

Regd. Office: Vardhman Park, Chandigarh Road, Ludhiana-141123,
Phones: 0161-6629888, 6629990, Fax: 0161-6629988, CIN: L17122PB1980PLC004242,
Email: secretarial@vpl.in, Website: www.vpl.in

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED JUN 30, 2021

Sr No	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations (Net)	19,211.34	4,339.32	51,087.62	19,217.31	4,344.44	51,112.09
2	Net Profit / (Loss) from Operational activities but before tax	(44.76)	(2,153.16)	(5,669.21)	(44.34)	(2,153.28)	(5,668.15)
3	Exceptional items : Income/(loss)	-	-	-	-	-	-
4	Net Profit / (Loss) before tax and after Exceptional items	(44.76)	(2,153.16)	(5,669.21)	(44.34)	(2,153.28)	(5,668.15)
5	Net Profit / (Loss) after tax and after Exceptional items	(44.76)	(2,153.16)	(5,669.21)	(44.73)	(2,153.28)	(5,669.67)
6	Other comprehensive income/ (loss), net of taxes	(15.27)	(17.52)	(61.09)	(15.27)	(17.52)	(61.09)
7	Net Profit / (Loss) for the period after tax and after Exceptional Items (including other Comprehensive income/(loss))	(60.03)	(2,170.68)	(5,730.30)	(59.99)	(2,170.80)	(5,730.76)
8	Equity share capital	2,229.10	2,229.10	2,229.10	2,229.10	2,229.10	2,229.10
9	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	(37,043.98)	-	-	(37,077.88)
10	Earnings Per Share (before exceptional items) (of Rs.10/- each)	(0.20)	(9.66)	(25.43)	(0.20)	(9.66)	(25.43)
	Basic (In Rs.)	(0.20)	(9.66)	(25.43)	(0.20)	(9.66)	(25.43)
	Diluted (In Rs.)	(0.20)	(9.66)	(25.43)	(0.20)	(9.66)	(25.43)
11	Earnings Per Share (after exceptional items) (of Rs.10/- each)	(0.20)	(9.66)	(25.43)	(0.20)	(9.66)	(25.43)
	Basic (In Rs.)	(0.20)	(9.66)	(25.43)	(0.20)	(9.66)	(25.43)
	Diluted (In Rs.)	(0.20)	(9.66)	(25.43)	(0.20)	(9.66)	(25.43)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and on company's website www.vpl.in.
- The above Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended Jun 30, 2021 have been reviewed by the Audit Committee in its meeting and approved by the Board of Directors in its meeting held on August 13, 2021. These results have been reviewed by Statutory Auditors of the Company.

For Vardhman Polytext Ltd.
sd/-
(Adish Oswal)
Chairman & Managing Director
DIN : 00009710

Place: Ludhiana
Dated: 13.08.2021

New Delhi

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD.
CIN: L65929DL1991PLC043182
Regd. Office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110 048.
Tel : 011-49025758, Fax: 011-41633812, Web : www.jagsonpal.com, Email: jagsonpal@finance@gmail.com

Extract of the Standalone Unaudited Financial Results of
Quarter ended 30.06.2021

PARTICULARS	Unaudited		Audited	
	Quarter ended 30.06.2021	Quarter ended 31.03.2021	Quarter ended 30.06.2020	Quarter ended 31.03.2020
Total Income from operation (net)	10.59	(12.40)	17.62	17.62
Net Profit/(Loss) for the period before tax and exception items	5.42	(14.49)	12.30	12.30
Net Profit/(Loss) for the period after tax (before exception items)	5.42	(14.49)	12.30	12.30
Net Profit / (Loss) for the period after tax, exceptional items	5.42	(14.49)	12.30	12.30
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	5.42	(14.49)	12.30	12.30
Equity Share Capital	550.04	550.04	550.04	550.04
Reserves excluding revaluation reserves (i.e Other Equity)	-	-	-	-
Earning Per Share (face value ₹10/- each)	0.09	(1.22)	0.22	0.22
Basic & Diluted	-	-	-	-

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30.06.2021 are available on the Stock Exchange i.e www.bseindia.com and on the company's website www.jagsonpal.co.in.

By Order of the Board
Kanwarpal Singh Kochhar
Chairman & Managing Director
DIN : 00529230

Place : New Delhi
Date : August 13, 2021

PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING
ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED
Registered Office : Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266
Branch Office: D-17 Sec -3 Noida UP

APPENDIX IV [See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]
POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Whereas
The undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 15.05.2021 calling upon the borrowers namely Mrs. Renuka Sharma and Mr. Ajay Sharma to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 36,46,292.38/- (Rupees Thirty Six Lakhs Forty Six Thousand Two Hundred Ninety Two and Paise Thirty Eight Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 9th Day of August of the year 2021

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs. 36,46,292.38/- (Rupees Thirty Six Lakhs Forty Six Thousand Two Hundred Ninety Two and Paise Thirty Eight Only) and interest thereon.

The borrowers attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that part and parcel of the property consisting of Flat Bearing Unit No. B-1908, Block-B, admeasuring 1290 Sq. Ft. 19th Floor, Oasis Venelia Heights, Plot No. HRA12A, Surajpur Site-C, Housing Complex, Greater Noida UP-201308.

Date: 09/08/2021
Place: UP, Noida

Authorized Officer
Aditya Birla Housing Finance Limited

LUMAX Lumax Auto Technologies Limited
CIN NO: L31909DL1981PLC349793
Registered Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II,
Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi - 110046 Tel No.: 011-49857832
E-Mail: shares@lumaxmail.com Website: www.lumaxworld.in/lumaxautotech

CORRIGENDUM TO THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-21
[FOR KIND ATTENTION OF SHAREHOLDERS]

In furtherance to our Notice of 40th Annual General Meeting published in Financial Express (English-All Edition) and Jansatta (Hindi-Delhi Edition) on 08th August, 2021 with respect to completion of Dispatch of Notice of 40th AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 to the Shareholders of the Company, kindly note the corrections as appearing hereunder with respect to and in connection with the said Annual Report.

The information as aforesaid i.e. printed vis a vis corrected figures are reproduced as below:

Sl. No.	Page No.	Particulars/Key Management Personnel and Relatives of Key Management Personnel (Managerial Remuneration)	Amount (in Lakhs)	
			Printed	Corrected
1	168	Mr. Anmol Jain	257.03	79.93
2	168	Mr. D.K. Jain	276.12	99.09
3	169	Total	913.72	559.59
4	255	Mr. Anmol Jain	257.03	79.93
5	255	Mr. D.K. Jain	283.86	106.83
6	255	Total	1,191.50	837.37

This Corrigendum should be read in conjunction with the said Annual Report.

This Corrigendum along with revised version of the said Annual Report is available on the Company's website at www.lumaxworld.in/lumaxautotech.

We sincerely regret the inconvenience caused in this regard.

For Lumax Auto Technologies Limited
Anil Tyagi
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. A16825

Place : Gurugram
Date : 13th August, 2021

GENESIS FINANCE COMPANY LIMITED
CIN: L65910DL1990PLC040795
Regd. Off: 4 MMTTC/STC Market Gurgaon, New Delhi-110017
E-mail: gopabhisht@gmail.com | Website: www.genesisfinance.net | Phone: 011-26691132

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2021

S. No	Particulars	Quarter ended on 30th June, 2021		Previous year ended on March 31, 2021		Previous year ended on June 30, 2020	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income From Operations	587.43	2,262.67	538.65	-	-	-
2	Net Profit / (Loss) for the quarter/year (before tax, exceptional and/Extraordinary items)	300.26	1,273.92	309.86	-	-	-
3	Net Profit / (Loss) for the quarter / year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	300.26	1,273.92	309.86	-	-	-
4	Net Profit / (Loss) for the quarter / year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	224.69	926.86	231.87	-	-	-
5	Total Comprehensive Income for the quarter / year (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	224.69	926.86	231.87	-	-	-
6	Equity Share Capital	4639.71	4639.71	4639.71	-	-	-
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	4520.03	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	0.48	2	0.50	-	-	-
	1. Basic:	0.48	2	0.50	-	-	-
	2. Diluted:	0.48	2	0.50	-	-	-

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results is available on the Company's website www.genesisfinance.net and Stock Exchange's website www.mseil.in.

2. The Company has adopted Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as amended till date, from April 01, 2019.

For and on behalf of the Board of Directors of
Genesis Finance Company Limited
Sd/-
Naresh Garg
(Managing Director)
DIN: 00916814

Place : New Delhi
Date : 13.08.2021

Canara Bank
Chandni Chowk Branch,
625, Chandni Chowk, Near Fateh Puri,
Delhi - 110006 Ph. 23976594, 9860341394
Email: cb0313@canarabank.com

POSSESSION NOTICE (SECTION 13(4))

Whereas, he undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 08.06.2021 calling upon the borrower M/s Vee Jay Trading Co. (Borrower), Mr. Man Singh (Proprietor) S/o Ramachal Singh to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 23,54,676/- (Rs Twenty Three Lakhs Fifty Four Thousand Six Hundred Seventy Six Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 12th day of August of the year 2021.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of Rs. 23,54,676/- (Rs Twenty Three Lakhs Fifty Four Thousand Six Hundred Seventy Six Only) as on 31.05.2021 and further interest and other charges levied thereon from 01.06.2021.

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (B) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

1. EMT of Commercial shop situated at 1st Floor, without roof rights. Builtup property bearing no. 1394(old)and 2808 (new), ward No. VI, Chhatta Surfi, Peepal Mahadev, Chawri Bazar, Hauz Quazi, Delhi-110006 in the name of Sh. Man Singh (Proprietor) of M/s Vee Jay Trading Co., Bounded as : North - Open Down Way, South - Common Corridor, East - Gali, West - Other Property

2. EMT of Commercial shop situated at 2nd Floor, without roof rights. Builtup property bearing no. 1394(old)and 2808 (new), ward No. VI, Chhatta Surfi, Peepal Mahadev, Hauz Quazi, Delhi-110006 in the name of Sh. Man Singh (Proprietor) of M/s Vee Jay Trading Co., Bounded as : North - Others Property, South - Stairs and Gali Below, East - Gali Below, West - Gurudwara

Date : 12-08-2021, Place : Delhi
Authorised Officer, Canara Bank

RASANDIK ENGINEERING INDUSTRIES INDIA LIMITED
Registered Office: 14 Roj-Ka-Meo Industrial Area, Sohna, Haryana-122103
CIN:L74210HR1984PLC032293 www.rasandik.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021

S. No.	Particulars	Three Months Ended			Year Ended
		30.06.2021 Unaudited	30.06.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited	31.03.2021 Audited
1	Total Income	4,337.92	874.90	5,740.03	13,927.78
2	Profit / (Loss) before tax	(210.64)	(560.98)	270.17	(742.64)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(158.29)	(416.48)	180.63	(577.28)
4	Total Comprehensive Income for the period (net of off tax) (OCI)	(158.29)	(416.48)	180.60	(569.31)
5	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	597.50	597.50	597.50	597.50
6	Other Equity	-	-	-	9,235.78
7	Basic and Diluted Earnings Per Share for the period (Rs.)	(2.65)	(6.97)	3.02	(9.66)

NOTE:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Investor Section of our website www.rasandik.com and under Corporate Section of BSE Limited at www.bseindia.com.
- The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13th August, 2021.

For and on behalf of the Board of Directors
Rasandik Engineering Industries India Limited
Sd/-
Rajiv Kapoor
Chairman & Managing Director
(DIN:00054659)

Place : New Delhi
Date : 13th August, 2021

STEEL STRIPS LIMITED
CIN: L45202PB1975PLC003610
REGD. OFFICE: VILLAGE HARKISHANPURA, BHAWANIGARH TEHSIL, DISTT. SANGRUR, PUNJAB-148026
Website: www.ssteelindia.net; Email ID: ssl_ssg@glide.net.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30/06/2021

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year Ended	
		3			

हत्या के बाद आरोपी ने किया आत्मसमर्पण

जयपुर, 13 अगस्त (भाषा)। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने चाचा और चाची की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी देवी लाल (40) ने हमीरगढ़ थाने पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने अपने घर में सो रहे चाचा नारू कीर (65) और उनकी पत्नी पर शुक्रवार सुबह धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी।

मुंबई के समुद्र तट के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

जानसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई समुद्र तट के पानी के वेहद प्रदूषित होने से संबंधित जीर्ण शोध स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। खासकर रख रखाव की कमियों, सी फौसद सोवर नेटवर्क को जोड़ने में देरी, शौचालयों की कमी और बूहन मुंबई नगर निगम द्वारा अरब सागर और उसके तटों की स्थिति में सुधार करने संबंधी सुझावों व अल्पकालिक योजना के अभाव पर चिंता जताई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली ग्रेटर मुंबई नगर निगम की एक अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की एक पीठ ने एनजीटी के आदेश पर

स्कूल खोलने की सुप्रीम कोर्ट से फरियाद

जानसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 अगस्त। दिल्ली के बारहवीं कक्षा के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र व राज्यों को यह निर्देश देने की फरियाद की है कि स्कूल खोलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए कक्षाएं शुरू करने के बारे में कोई समयबद्ध निर्णय लेने पर विचार किया जाए। छात्र अमर प्रेमप्रकाश केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा इस मामले में ढुलमुल रवै और अनिर्णय की स्थिति को लेकर नाराज है। स्कूलों को खोलने और जरूरी एहतियात के साथ कक्षाएं बहाल करने के मामले में वह दिल्ली सरकार से भी खुश नहीं है। अमर की तरफ से याचिका वकील रवि प्रकाश मेहरोत्रा ने दायर की है। उन्होंने ऑनलाइन और वर्चुअल कक्षाएं लगाने से स्कूली बच्चों के दिल-दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने और उनका स्वास्थ्य खराब होने का भी उल्लेख किया है। याचिका में बताया गया है कि अकादमिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं जो वर्चुअल कक्षा में शामिल नहीं हो सकते। उन्हें निजी शिक्षकों से ट्यूशन लेना पड़ रहा है या कोचिंग क्लास में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। याचिका में दलील दी गई है कि छात्र समुदाय अपने स्कूलों और शिक्षा संस्थाओं से पढ़ाई निलंबित रहने के कारण संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा है। इससे उन्हें संविधान में प्रदत्त शिक्षा के बुनियादी अधिकार से भी वंचित होना पड़ रहा है।

PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: इंडियन चारिंग क्रॉस, बंगलूर, मुंबई-400026
शाखा कार्यालय: सी-17, सेक्टर-3, नोएडा गुरु
परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8(1) देखें)
कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
जिस कि, वित्तीय परिसमर्पणों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राथमिक अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोध्यास्थानी ने सर्वोच्च अदालत 2002 के अंतर्गत मांग सूचना दिग्दि 15.05.2021 जारी कर अध्यापक रेनुका शर्मा एवं श्री अजय शर्मा को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वगित राशि रु. 36,46,292.38/- (रुपये छत्तीस लाख चियालीस हजार दो सौ बयानबे एवं अठतीस पैसे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अध्यापक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अध्यापक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 09 अगस्त 2021 को अयोध्यास्थानी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोध्यास्थानी ने यह नौचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से अध्यापकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि ये यहां वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय को बकाया रु. 36,46,292.38/- (रुपये छत्तीस लाख चियालीस हजार दो सौ बयानबे एवं अठतीस पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। अध्यापक का ध्यान प्रतिभूत परिसमर्पणों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (6) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

STANDARD SURFACTANTS LIMITED

Registered Office: 8/15, Arya Nagar, Kanpur-208002 (India) Tel: 0512-2531762
E-mail: headoffice@standardsurfactants.com, Website: www.standardsurfactants.com
Corporate Identity Number: L24243UP1989PLC010950

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR QUARTER ENDED ON 30-06-2021

Sl. No.	Particulars	Quarter ended on 30.06.2021 (Rs. in Lacs)	
		30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	3315.13	1886.59
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Items)	154.39	95.46
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	154.39	95.46
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	114.02	71.20
5.	Total comprehensive income for the period	114.02	71.20
6.	Paid up Equity Share Capital	711.26	711.26
7.	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each):		
	1. Basic	1.60	1.00
	2. Diluted	1.60	1.00

Notes:
1. The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 12, 2021. The statutory auditors have carried out limited review of these financial results.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly financial results are available on stock exchange websites and on Company's website.
For Standard Surfactants Limited
Pawan Kumar Garg
Chairman & Managing Director
DIN-00250836

GENESIS FINANCE COMPANY LIMITED

Regd. Off: 4 MMTCS, Market Ghatganj, New Delhi-110017
E-mail: gopalbishtgfc@gmail.com | Website: www.genesisfinance.net | Phone: 911-26691132

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2021

Sl. No.	Particulars	Previous year ended on 30.06.2021 (Rs. in Lakhs)		
		Quarter ended on June 30, 2021	Previous year ended on March 31, 2021	Previous year ended on June 30, 2020
1.	Total Income From Operations	587.43	2,262.67	538.65
2.	Net Profit/(Loss) for the quarter/year (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	300.26	1,273.92	309.86
3.	Net Profit / (Loss) for the quarter/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	300.26	1,273.92	309.86
4.	Net Profit / (Loss) for the quarter/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	224.69	926.86	231.87
5.	Total Comprehensive Income for the quarter/ year (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	224.69	926.86	231.87
6.	Equity Share Capital	4639.71	4639.71	4639.71
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		4520.03	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic	0.48	2	0.50
	2. Diluted	0.48	2	0.50

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results is available on the Company's website www.genesisfinance.net and Stock Exchange's website www.mse.in.
2. The Company has adopted Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended till date, from April 01, 2019.
For and on behalf of the Board of Directors of Genesis Finance Company Limited
Naresh Garg
(Managing Director)
DIN: 00916814

MEDICAMEN BIOTECH LTD.

Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019
CIN: L74899DL1993PLC056594 E-mail: cs@medicamen.com, www.medicamen.com

Extracts of Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter ended on 30.06.2020 (In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		3 Months Ended 30.06.2021 (Un-Audited)	Preceding 3 Months ended 31.03.2021 (Audited)	Corresponding 3 Months ended 30.06.2020 (Un-Audited)	31.03.2021 Audited	3 Months Ended 30.06.2021 (Un-Audited)	Preceding 3 Months ended 31.03.2021 (Audited)	Corresponding 3 Months ended 30.06.2020 (Un-Audited)	31.03.2021 Audited
1.	Total income from operations (net)	2760.90	2087.46	2619.93	11090.06	2760.90	2177.60	2786.76	11347.01
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	474.57	464.35	305.27	1675.12	474.57	410.07	323.82	1639.40
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	474.57	464.35	305.27	1675.12	474.57	410.07	323.82	1639.40
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	415.13	414.34	210.49	1248.66	415.13	364.69	224.41	1212.94
5.	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Equity Share Capital	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66	1221.66
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)								
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):								
	Basic:	3.40	3.39	1.72	10.22	3.40	2.99	1.84	9.93
	Diluted:	3.40	3.39	1.72	10.22	3.40	2.99	1.84	9.93

Note:
1. The Un-audited financial results for the quarter ended have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 13.08.2021.
2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
3. The company operates only in one business segment, viz. Pharmaceuticals formulations, hence segment reporting is not applicable.
4. The Earning Per Share has been calculated as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 33 - "Earning per Share".
5. During the quarter under review, beta lactum block was shut down for 5-6 weeks for upgradation.
6. The Pharma Oncology formulation plant at Haridwar which has commenced its operations in the month of March 2021, major revenue/ income from oncology plant will come after US FDA approval. However oncology plant will start generating income from domestic operations and exports to ROW markets after validations are completed.
7. Audit report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.
8. The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary, to make them comparable.

For Medicamen Biotech Limited
Sd/-
Rahul Bishnoi
Chairman

Place: New Delhi
Date: 13.08.2021

जगन लेम्प्स लिमिटेड

सीआईएफ: L31501HR1993PLC033993
पंजीकृत कार्यालय: नरला प्लाज मनीहारी रोड, कुडली, जिला-सोनीपत-131028, हरियाणा
दूरभाष: +91 8814805077, ई-मेल: sales@jaganlamps.com, वेबसाइट: www.jaganlamps.com

30.06.2021 को समाप्त तिमाही के अलेखपरिष्कृत वित्तीय परिणामों का सारांश

क्रम सं.	विवरण	समान तिमाही (₹. लाख में)		
		30.06.2021 (अलेखपरिष्कृत)	30.06.2020 (अलेखपरिष्कृत)	31.03.2021 (लेखापरिष्कृत)
1.	प्रचालनों से कुल आय	774.54	334.71	3138.61
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवाहित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	26.52	10.92	290.53
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवाहित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	26.52	10.92	290.53
4.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (हानि) (अपवाहित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	18.97	7.51	208.41
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित)	18.97	7.51	204.93
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	688.95	688.95	688.95
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अकेलित नुतन पत्र में दर्शाई गई (पुनर्मूल्यंकन आरक्षित) जैसा कि गत वर्ष के लेखापरिष्कृत नुतन पत्र में दर्शाई है।	-	-	1464.65
8.	आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रत्येक के) (सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु)			
	1. मूल	0.28	0.11	3.02
	2. डायल्यूटेड	0.28	0.11	3.02

नोट:
1. उद्युक्त परिणामों समीक्षा लेखापरिष्कृत तिमाही द्वारा की गयी और 12.08.2021 को आयोजित निदेशक मण्डल की सम्मति बैठक में अनुमोदित की गयी।
2. उद्युक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अधेश) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के अलेखपरिष्कृत वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय अलेखपरिष्कृत वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट www.jaganlamps.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
3. कम्पनी ने आज की तिमाही तक संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ("इंड एस") को स्वीकार किया है। ऐसे संशोधन अधिनियम के साथ पठित उनके तहत तैयार वित्तीय परिणामों के तहत अधिसूचित नवीनमान लेखांकन मानकों से निष्कलित है।
जगन लेम्प्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से
आशीष अग्रवाल (प्रबंध निदेशक)

तिथि: 12 अगस्त, 2021
स्थान: कुडली

SANGAL PAPERS LIMITED (CIN: L21015UP1980PLC005138)

REGD. OFFICE: VILL. BHAINSA, 22KM STONE, MEERUT-MAWANA ROAD, P.O. SANDHAN, MAWANA, UP-250 401, Tel: 01233-271137, 271515, 274324
website: www.sangalpapers.com, e-mail: accounts@sangalpapers.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021. (₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2021 (Un-audited)		
		30.06.2021 (Un-audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 30.06.2020 (Un-audited)
1.	Total income from operations	3,931.55	10,638.39	1,662.19
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	121.82	76.49	(123.90)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	121.82	76.49	(123.90)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	108.06	65.30	(123.90)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	0.91	32.80	6.89
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	130.73	130.73	130.73
7.	Other equity (Reserves excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	3,236.14	-
8.	Earnings per equity share (face value of Rs. 10/- each) (not annualised)			
	(a) Basic (in ₹)	8.27	5.00	(9.48)
	(b) Diluted (in ₹)	8.27	5.00	(9.48)

NOTES:
1. These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. 2. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.sangalpapers.com.
For and on behalf of the Board of Directors of SANGAL PAPERS LIMITED
Sd/-
Himanshu Sangal
(Managing Director)
DIN- 00091324

Place: Mawana
Date: August 13, 2021

PTC INDUSTRIES

ASPIRE • INNOVATE • ACHIEVE
CIN: L27109UP1963PLC002931
Registered Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH-25A, Sarai Sahjadi, Lucknow, Uttar Pradesh - 227101, India
Ph: +91 522 7111017, Fax: +91 522 7111020, Web: www.ptcil.com email: ptc@ptcil.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2021

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		3 months ended		Corresponding 3 months ended in the previous year		3 months ended		Corresponding 3 months ended in the previous year	
		30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)
1.	Total income	4,600.12	2,899.71	4,600.12	2,899.71				
2.	Total expenses	3,895.75	2,859.49	3,896.00	2,859.49				
3.	Profit before tax (1-2)	704.37	40.22	704.12	40.22				
4.	Total tax expense	180.83	7.63	180.83	7.63				
5.	Profit for the period (3-4)	523.54	32.59	523.29	32.59				
6.	Total other comprehensive income	6.07	(5.41)	6.07	(5.41)				
7.	Total comprehensive income for the period (5+6)	529.61	27.18	529.36	27.18				
8.	Paid-up equity share capital (₹ 10 per share)	523.91	523.91	523.91	523.91				
9.	Earnings per share (Face value of ₹ 10/- each):								
	(a) Basic*	9.99	0.62	9.99	0.62				
	(b) Diluted*	9.99	0.62	9.99	0.62				

Note: The above is an extract of the detailed of Financial Results for the quarter ended at June 30, 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites of BSE www.bseindia.com and also on company's website at: www.ptcil.com

For and on Behalf of Board of Directors
Sd/-
(Sachin Agarwal)
Chairman & Managing Director

Place: Lucknow
Date: 13.08.2021

अमृत कॉर्प. लिमिटेड

सीआईएफ: L15141UP1940PLC000946
पंजीकृत कार्यालय, सीएम्-28, पहरी मंदि, गान एक्सप्रेस, अमृत नगर, जीटी रोड, गाजियाबाद-201009 (एपी)
कॉर्प. कार्यालय: अमृत कॉर्पोरेट केंद्र, ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201309 (एपी)
दूरभाष: 0120-4506900 | फैक्स: 0120-4506910 | वेबसाइट: www.amritcorp.com | ई-मेल: info@amritcorp.com

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के अनेककृत वित्तीय परिणामों का सार

क्रम सं.	विवरण	(प्रति शेयर डेटा छोड़कर ₹. लाख में)			
		समान तिमाही		समान वर्ष	
		30.06.2021 (अनेककृत)	31.03.2021 (अनेककृत)	30.06.2020 (अनेककृत)	31.03.2021 (अनेककृत)
1.	परिचालनों से कुल आय	675.19	1,359.33	49	